

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज- दिनांक- जुलाई 02, 2021

***यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग*-** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 419 वाहनों का चालान, 06 वाहनो से 2000/ रुपया शमन शुल्क वसूला गया।

कोरोना महामारी के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-** श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर ***मास्क न लगाने वाले कुल- 15 व्यक्तियों से 15,000/- रुपये शमन शुल्क वसूला गया ।

***शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 33 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 290 भा0द0वि0 मे 05 व 110जी जा0फौ0 में 00 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना कोठीभार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त हरिद्वार पुत्र उत्तम नि0 पटखौली थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-111/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त संतकुमार पुत्र स्व0 देवनारायण नि0 खैराती थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-144/21 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. तीरथ निषाद पुत्र रामप्रीत सा0 पिपरा खादर 2. सिद्धू पुत्र धर्मेन्द्र निषाद सा0 महुअवा महुई 3. उपेन्द्र साहनी पुत्र परसा सा0 परतावल 4.सुरेन्द्र साहनी पुत्र रामहरख सा0 परतवाल 5. नजीबुल्लाह पुत्र सखावत सा0 तरकुलवा उर्फ भटगावा थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-निल/21 धारा-3/4 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. किशन मद्धेशिया पुत्र रामश्वेर सा0 वार्ड नं0-20 2. विजय पुत्र भकालू सा0 वार्ड नं0-11 3. जितेन्द्र उर्फ संतोष पुत्र लालबचन सा0 मुड़िला थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-निल/21 धारा-3/4 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

आर्म्स अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त अमित चौहान पुत्र नाटे उर्फ रामसूरत सा0 वार्ड नं0-11 कस्बा व थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 01 अदद चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-143/21 धारा- 4/25 आर्म्स अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त मनोज चौरसिया पुत्र रामचन्द्र सा0 बरगाहपुर थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 01 अदद कट्टा 315 बोर, 02 अदद कारतूस व मु0अ0सं0-154/21 से सम्बन्धित चोरी की 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-157/21 धारा- 3/25 आर्म्स अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जुआ अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. भोला प्रसाद पुत्र रामबहाल सा0 देवपुर थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज आदि 04 नफर के कब्जे से ताश के 52 पत्ते व माल-फड़-593/ रुपया बरामद 2. दुर्गेश साहनी पुत्र राममिलन सा0 तिकोनिया नर्सरी थाना पुरन्दरपुर

जनपद महाराजगंज आदि 03 नफर कब्जे से ताश के 52 पत्ते व माल-फड़-427/-रुपया बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-140/141/21 धारा-13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

गैंगेस्टर अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. संजय साहनी पुत्र रामवृक्ष 2. संदीप पुत्र स्व0 सुग्रीव 3. मनीष पुत्र मंगल चौधरी नि0गण गौहरपुर टोला अमहवा थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-139/21 धारा- 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1.धीरज कुमार पुत्र दीपराज सा0 रमपुरवा थाना कोठीभार 2. रामू उर्फ उदयभान पुत्र लल्लन सिंह सा0 ददौरा रानी बाजार थाना रामनगर जनपद बारांबकी के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-262/21 धारा- 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-06 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

जनपद में 01/02-07-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 44 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।